

कार्य-क्षमता और गतिविधि अक्षमता प्रश्नावली:
रुमेटी गठिया V2.0 (WPAI:RA)

आपकी काम करने की क्षमता और नियमित गतिविधियों पर आपके रुमेटी गठिया के प्रभाव के बारे में नीचे प्रश्न पूछे गए हैं। कृपया खाली जगह भरिए या अंक पर गोल कीजिए।

1. क्या इस समय आप नौकरी पर हैं (कमाने के लिए काम करना)? _____ नहीं _____ हाँ
यदि नहीं, तो "नहीं" पर निशान लगाइए और सीधे प्रश्न 6 पर पहुँच जाइए।

अगले प्रश्न पिछले सात दिनों के बारे में हैं, जिसमें आज का दिन शामिल नहीं है।

2. पिछले सात दिनों के दौरान, अपने रुमेटी गठिया के कारण आपको काम के कितने घंटे गँवाने पड़े? उन घंटों को गिनें जिन्हें अपने रुमेटी गठिया की समस्या के कारण बीमारी के दिनों में आपने गँवाया या जब आप देर से गए या जल्दी छोड़ आए / इस अध्ययन में सहभाग के लिए दिए गए समय को शामिल नहीं करें।

_____ घंटे

3. पिछले सात दिनों के दौरान, किसी अन्य कारण से आप काम पर कितने घंटे चूके जैसे छुट्टियाँ, बैंक हॉलिडे, इस अध्ययन में सहभाग के लिए निकाला गया समय?

_____ घंटे

4. पिछले सात दिनों के दौरान, आपने असल में कितने घंटे काम किया?

_____ घंटे (कुछ भी काम नहीं किया तो सीधे प्रश्न 6 पर पहुँच जाइए।)

5. पिछले सात दिनों के दौरान, काम करते समय आपके रुमेटी गठिया ने आपकी कार्यक्षमता को कितना प्रभावित किया?

याद कीजिए उन दिनों को जब आपके काम की मात्रा या उसका प्रकार सीमित रहा, वे दिन जब आपने जितना चाहा, उससे कम काम कर पाए, या वे दिन जब आप हमेशा की तरह ध्यान से काम नहीं कर सके। यदि आपके रुमेटी गठिया ने आपके काम को थोड़ा सा प्रभावित किया है तो छोटे अंक को चुनिए। यदि आपके रुमेटी गठिया ने आपके काम को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है तो बड़े अंक को चुनिए।

केवल यह ध्यान दें कि आपके काम करते समय रुमेटी गठिया ने कार्यक्षमता को कितना प्रभावित किया।

रुमेटी गठिया का मेरे काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	रुमेटी गठिया ने मुझे काम करने से पूरी तरह से रोक दिया
--	------------------------	---

उपयुक्त अंक पर गोल करें

6. पिछले सात दिनों के दौरान, आपके रुमेटी गठिया ने नौकरी पर काम के अलावा आपकी रोज़ाना की नियमित गतिविधियाँ संपन्न करने की आपकी क्षमता को कितना प्रभावित किया?

नियमित गतिविधियों से, हमारा मतलब है आम तौर पर जो गतिविधियाँ आप किया करते हैं, जैसे घर का काम, खरीदारी, बच्चों की देखभाल, व्यायाम, पढ़ाई, इत्यादि। याद कीजिए वे समय जब आपकी गतिविधियों का प्रकार या मात्रा सीमित थी और वे दिन जब आपने जितना चाहा उससे कम कर पाए। यदि आपके रुमेटी गठिया ने आपकी गतिविधियों को थोड़ा सा प्रभावित किया है तो छोटे अंक को चुनिए। यदि आपके रुमेटी गठिया ने आपकी गतिविधियों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है तो बड़े अंक को चुनिए।

केवल यह ध्यान दें कि रुमेटी गठिया ने नौकरी के काम के अलावा आपकी नियमित दैनिक गतिविधियाँ करने की आपकी क्षमता को कितना प्रभावित किया।

रुमेटी गठिया का मेरी दैनिक गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	रुमेटी गठिया ने मुझे अपनी दैनिक गतिविधियों को करने से पूरी तरह से रोक दिया
---	------------------------	--

उपयुक्त संख्या पर गोल करें